



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष 1933 (श0)

(सं0 पटना 827) पटना, वृहस्पतिवार, 29 दिसम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

8 दिसम्बर 2011

सं0 22/नि0सि0(भाग0)-9-20/2011/1509—श्री राकेश कुमार गुप्ता, आई0डी0-3971, तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता), सिंचाई अवर प्रमण्डल, तारापुर को संग्रामपुर थाना कांड सं0 15/2009, दिनांक 2 फरवरी 2009 के मामले में हिरासत से बाहर आने एवं उनके द्वारा दिये गये योगदान प्रतिवेदन, दिनांक 22 सितम्बर 2011 के सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (3) (क) में निहित प्रावधान के तहत निलंबन से मुक्त कर उनके योगदान को स्वीकृत करते हुए उक्त नियमावली के नियम-9 (3) (2) के आलोक में नियम-9 (1) (क) (ख) एवं (ग) के तहत पुनः निलंबित कर विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के फलस्वरूप श्री गुप्ता को पुनः दिनांक 22 सितम्बर 2011 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

(2) निलंबन अवधि में श्री गुप्ता का मुख्यालय, मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद निर्धारित किया जाता है।

(3) श्री गुप्ता को निलंबन अवधि के लिये नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(5) श्री गुप्ता के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही का संकल्प आरोप पत्र, प्रपत्र-“क” के साथ अलग से निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

भरत झा,

सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 827-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>